

an>

Title: Issue regarding discrimination against Dalits and the housing problems faced by Dalits in the country.

ऑ. उदित ररु (उतर-पधुडड दलुतु) : डैडड, डै आडके डुतल आडररु डुं कल आडने डुडत डी डदुतुडडुड वलषुड डर डुलने की डररुऑत डी डै।

12.26 hours

(At this stage Shri Chaudhury Mohan Jatua and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table)

डैडड, डै डुं. अडुडेडकर की डरत कुुत करुते डुर शुरु करुडु।

"I, Dr. Ambedkar, observed that many villages continue to remain sinks of localism, dens of ignorance and narrow-mindedness!"

डैडड, डै कदुनर डरडुडु कल नेशनल कुरडड रलरुुडु डुडु के डलसुर से डलतलु के ऊडर अतुडर डडे डै। वरु 2013 डै डसडै 17 डुतलशत ऑडुड डुडु और वरु 2014 डै 19 डुतलशत से ऑुडर डुडु डुडु डै। डसुी तरुके से, डनके ललवलडु डुडुडु के डरु डै ऑु डीडुत सरु डै, उसडै डतररु डुडु डै कल 21 डुतलशत डलतल आऑ ककुते डकन डै डुडु डुडु डै, ऑडकल डुडुडु के डरडुडु डै डुडु डुडु डै। डै डुं. अडुडेडकर के कुुतेशन के सरुथ अडुनी डरत शरुतु करुतु डुं।

"The castes are anti-national because they bring separation in social life. They are anti-national also because they generate jealousy and antipathy between caste and caste. But we must overcome all these difficulties if we wish to become a nation in reality."

Thank you, Madam.

डरननीड अडुडकु :

डुं. कलरुडु डी. सुुलकु की कुु डुं. उदलत ररु डुररु उतरु डर वलषुड के सरुथ डुडुडु करुने की अनुडुतल डुडुडु की ऑरुती डै।